

फोर्स शब्दों की देवनागरी लिपि में लिखे जाने के आदेश जारी किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वायु सेना के अतिरिक्त नौ सेना और थल सेना के मुख्यालयों में हिन्दी नामों के स्थान पर अंग्रेजी नाम अपना लिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Immigration of Indians to Foreign Countries

*1498. Shri G. S. Mishra:
Shri Nitiraj Singh:
Chaudhary:

Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) the total number of immigrants to (i) U.K., (ii) Canada, (iii) Kuwait, and (iv) U.S.A. from India during the last five years;

(b) how many of them are Engineers, Scientists and Doctors; and

(c) the Government's policy towards this immigration which leads to brain-drain on large scale?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(c) The Passports Act, 1967, which regulates issue, refusal, etc. of passports applies equally to all citizens regardless of their profession or academic attainments. There is no provision in the Act which empowers

Government to refuse passport on the ground that the applicant's departure abroad might lead to brain-drain. Therefore, when an engineer or scientist or doctor applies for passport, he cannot be refused one if he qualifies for it under the Act.

राज्यों में आकाशवाणी के नाम में परिवर्तन

*1499. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री श्रीकार लाल बेरवा :

श्री काशीनाथ पाण्डेय :

श्री हेम बल्ला :

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

श्री नाथ पाई :

श्री रवि राय :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 27 मार्च, 1967 के अतारंकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों में भी आकाशवाणी के नाम को बदलने के सम्बन्ध में कोई मुझाव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई दृष्टान्त बनाई गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) जैसा कि 27 मार्च, 1967 के अतारंकित प्रश्न संख्या 50 में बताया गया है 'आकाशवाणी' के नाम को 'यह आकाशवाणी भारत है', 'यह आकाशवाणी है', 'आकाशवाणी भारत', और 'भारतीय वाणी' में बदलने के मुझाव प्राप्त हुए हैं, परन्तु हम उनको स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि 'आकाशवाणी' शब्द क.क.फ. दिनों में मर्भा भारतीय प्रसारणों में प्रयुक्त हो रहा है और अब प्रचलित हो गया है।